

आवार्यामि अवृयामी 10, (वृ) couvrir; cachier.

आवारि अवृरि m. (वृ) échoppe couverte; étal; boutique en plein air.

आवाल्न अवृला n. (वल) petit bassin pour l'eau au pied d'un arbre.

आवास अवृसा m. (वास) maison.

आविक अवृका m. (अवि) étoffe de laine; couverture.

आविग्र्य अवृग्र्य pp. d'अविनाजामी. — S. m. carissa carondas, bot. petit arbre à fruit.

आविज्ञे अवृज्ञे 6, (विज) cf. अवृनाजामी.

आविध्यामि अवृध्यामि 4, (व्याध) lancer vers : isum une flèche. || frapper; percer d'une arme lancée. || Jeter, mettre : strajam une guirlande sur les épaules. Pp. अवृध्यामि lancé; || frappé; || frappé d'un accident; frappé de folie.

आविधि अवृधि m. (व्याधि) percerette, vrille ou forêt, esp. de diable ou vilbrequin mis en mouvement par une corde.

आविनतामि अवृनाजामी 7, (विज) agiter, troubler. Moy. अवृज्ञे.

आविन्द्यामि अवृन्द्यामि c. (विन्द) ac. faire que qqn. ait; offrir; donner.

आविल्ल अवृला a. (विल ou बिल) trouble; troublé.

आविशामि अवृशामी, अवृशे 6, (विश) entrer dans; approcher de, ac. — Pp. अवृशिता où est entré qqn. ou qqc.; pénétré, possédé par un sentiment, par une idée, par un démon, etc.

आविस् अवृस् adv. à découvert, manifestement; ouvertement, en public. अवृशिता a. (कृ) manifeste, évident, public.

आवूक अवृका m. père, t. de théâtre.

आवृणामि अवृणामी, अवृण्णे 9, (वृ) choisir; faire son choix, désirer, Vd. : indravaraṇayār ava अवृण्णे je désire le secours d'indra et de varuṇa.

आवृणोमि अवृणोमि 5, (वृ) couvrir; envelopper. — Pp. अवृण्ता.

आवृत् अवृत् f. (वृत्) ordre, méthode.

आवृत्ति अवृत्ति f. (वृत्) retour. Cf. अवृत्ति.

आवृष्ट अवृष्टा n. et अवृष्टि f. (वृष्ट) pluie.

आवृष्टे अवृष्टे 6, (वृष्ट) briser, mettre en pièces, Vd.

आवृगे अवृगे m. (विज) tremblement, trouble, agitation. || Au fig. souci; terreur; consternation. — F. अवृगे convolvulus argenteus, bot.

आवृणिक अवृणिका a. (अवृण) qui n'est pas mêlé comme une tresse; qui ne se mêle pas. || Qui n'est pas mêlé avec autre chose, séparé, indépendant, Bd.

आवृदयामि अवृदयामी c. (विद) faire savoir qqc. à qqn., 2 ac.; annoncer, informer.

अवृदया a. qu'il faut faire savoir; qu'on peut annoncer.

आवृश अवृश m. (विश) m à m. pénétration dans qqc. ou par qqc., inhabitation. || Occupation de l'âme par une idée, par un désir, par une puissance démoniaque ou surnaturelle, possession; || frénésie; || vertige apoplectique ou épileptique. || Orgueil, arrogance.

अवृशाना n. local où l'on rentre qqc., atelier, manufacture, entrepôt, etc. || Entrée, pénétration. || Possession démoniaque; || fureur. || Le disque du soleil.

अवृशिका a. hôte; qui rend visite. || Privé, possédé en propre.

अवृशिता a. domicilié.

आवृष्टक अवृष्टका m. (वृष्ट) palissade, clôture.

आवृतामि अवृतामि 1, (वृता) aller vers.

आश अश m. (अश) aliment, nourriture. en composition avec प्रतर.

आश अश p. de अश 9.

आशङ्का अशङ्का f. (अशङ्क) crainte.

अशङ्कामी 1, se défier de, craindre, ac.

आशाना अशाना m. (अश) terminalia alata tomentosa, bot.

आशय अशय m. (अश) lit; || chambre à coucher, cabinet; || habitation. || Pensée; projet, intention; || esprit, âme. || Estomac; || indigestion. || Propriété, possession. || Un avare. || Le jack, esp. d'arbre à pain.

अशयया m. mangeur de maisons, le feu.

आशर अशरा m. air, vent, feu. || राशसा, पिशसा. Cf. अशरा.

आशव अशवा n. esprit distillé de la mélasse, esp. de rhum. Cf. अशवा.

आशंसामि अशंसामी 1, (अशंस) dire à qqn., indiquer. || Demander; solliciter. — Au moy. अशंसé, ac. désirer; désirer voir. || Espérer : विजयाम् ou विजयया la victoire. || Avec यदति, penser que : अशंसé यदति जिवन्ति je crois qu'ils sont vivants.

अशंसé f. espérance.

आशा अशा f. espérance.

अशवात् a. qui espère; qui vit dans l'espérance.

आशाह अशाहा m. le mois de ce nom, juin-juillet. || Bâton de bois de palāca que portent les ascètes. — F. अशाहा nom de deux astérismes lunaires. || Cf. अशाहा.

आशाबन्ध अशाबन्धा m. (बन्ध) le lien de l'espérance; l'espoir. || Au fig. toile d'araignée.

आशासामि अशासामी 2, (अश) ordonner, commander qqc. à qqn., 2 ac. || Dire, raconter. || Souhaiter, faire des souhaits : अशासा मे प्रियाम् m'ayant souhaité le bonheur.

आशित अशिता pp. (अश) mangé.

अशितागवना a. (ग) mangé par les vaches, tondu par elles, en parlant d'un pré.

अशिताम्भवा n. (भवा) aliment, nourriture. || M. satiété.

आशितु अशितु m. (अश) mangeur.

आशिन अशिन a. (अश) mangeur; qui mange.

आशिर अशिर m. (अश) le feu. || राशसा, पिशसा. Cf. अशरा.

आशिरःपादम् अशिरःपादम् adv. (अशिर, पादा) de la tête aux pieds; de pied en cap.

आशिस अशिस f. espérance. Cf. अशा.

आशिस अशिस f. (अश) bénédiction; vœux pour qqn. || La dent vénimeuse du serpent, cf. अशिर.

आशी अशी f. bénédiction donnée ou reçue. || La dent vénimeuse du serpent. || Le venin du serpent. || Cf. अशिस.

अशिरवादा m. (वाद) parole de bénédiction; vœu, souhait.

अशिरवा m. (वा) m à m. la bête à la dent vénimeuse, le serpent.

आशु अशु a. rapide; hâtif, précoce. || Au n. rapidement. || Gr. ὀξύς.

अशुकरीन a. (करी) qui fait ou agit promptement, expéditif.

अशुया a. (गम) qui va vite. — S. m. vent; flèche.

अशुया n. rapidité; précocité; gr. ὀξύτης. अशुया f. (पत्रा) boswellia serrata, bot. plante qui produit l'encens.

अशुवृत्ति m. (वृत्ति) riz hâtif, qui mûrit dans la saison des pluies.

अशुवृत्तमि m. (वृत्ति) m à m. qui dessèche vite, c-à-d. air, vent, feu.

आशुकुटिन् अशुकुटिन m. montagne.

आशोशुचामि अशोशुचामी aug. (शुच) Vd. éclairer, illuminer. — Imp. अशुशुचामि.

आशुचर्य अशुचर्या a. (शर) admirable, merveilleux. — S. m. merveille, miracle, prodige.

अशुचर्यामया a. (सि. मया) merveilleux, prodigieux.

आश्रम अश्रम m. (श्रम) demeure, habitation; maison paternelle; || retraite, asile, refuge; || surtout : ermitage dans les bois, séjour d'anachorète ou de vanaprastā. Cf. अश्रम.

अश्रमपादा n. mms.

अश्रमिका a. relatif à un अश्रम ou à un anachorète.

आश्रय अश्रय m. (श्रि) arrivée, approche, action de secourir ou d'avoir recours. || Action de circonvenir, recours à la ruse, tromperie, fraude, subterfuge. || Lieu où l'on se retire, retraite; asile sacré. Maison. || Bd. réceptacle : il y en a six, savoir les cinq sens et le manas.

अश्रयामी 1, aller à; se retirer dans : vanam dans une forêt. || Embrasser : श्रमाम् la Loi; s'attacher à, ac.

अश्रया m. (अश) le mangeur de maisons, le feu. Cf. अशया.

आश्रव अश्रवा a. (श्रु 1) m à m. qui coule vers : complaisant. — S. m. courant, ruisseau. || Acquiescement, promesse, engagement. || Bd. complaisances, vices de la sensualité.

अश्रवणया m. (श्रि) destruction des souillures du vice, extinction de la concupiscentia, Bd.

आश्रवयामि अश्रवयामी c. (श्रु 5) faire entendre, raconter.

आश्रि अश्रि f. fil de l'épée. Cf. अश्रि.

आश्रित अश्रिता pp. (श्रि) les perceptions des six अश्रयस ou sens, Bd. || Adj. qui cherche un refuge, une protection : mam अश्रितस qui se réfugie en moi.

आश्रुत अश्रुता pp. (श्रु 1) promis.

आश्रुष्यामि अश्रुष्यामि 4, (श्रु) ac. em-